

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191
No. 292]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939	[N.C.T.D. No. 191

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग
(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)
अधिसूचना

दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

सं. फा. डीपीसीसी(3)(3)(8-2)/प्रषा.-14/1327.—जल (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन विनियमों को **वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाए।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:-उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं** :-कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :-जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :-इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या	:	*06 (2017) *इसमें परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100 /- रुपये + ग्रेड पे 7600 /-रुपये)
5.	चयन पद या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	50 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	प्रदूषण नियंत्रण/संबंधित क्षेत्र में दस वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में स्नातकोत्तर की उपाधि, परन्तु यह अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् हो। * अभियांत्रिकी के विशेष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिवित्त भरने के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ, अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि की न्यूनतम योग्यता
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिये एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 66 2/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रति नियुक्ति द्वारा (ii) 33 1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	<p>पदोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पे (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में 6600/-रुपये ग्रेड पे सहित) पर्यावरणीय अभियन्ता के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले।</p> <p>नोट: कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:-</p> <p>क. (1) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पे (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में 6600/-रुपये ग्रेड पे सहित) के पदों में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा</p> <p>(ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले</p> <p>टीप: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु</p>

		विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति:—</p> <p>1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष</p> <p>2. अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले दो सदस्य —सदस्य</p> <p>3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती—सदस्य</p> <p>4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य</p> <p>5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य</p> <p>विभागीय चयन समिति :-</p> <p>1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष</p> <p>2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ—सदस्य</p> <p>3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती—सदस्य</p> <p>4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य</p> <p>4. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण)—सह—सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st August, 2017

F. No. DPCC/(3)(3)(8-2)/Admn-14/1327.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Sr.Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

- Short title and commencement.— (i) These regulations may be called Sr. Environmental Engineer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Saving.— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Environmental Engineer.	*6(2017) * subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Level 12 in Pay matrix. (Pre-revised Pay Band- 3Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs.7600/-)	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 50 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	Master's degree in Engineering* in related field, from a recognized University or Institution with ten years' experience in pollution control or related field subject to after acquiring the Master's Degree. *The particular discipline(s) of Engineering in which a degree is required will be decided each time a vacancy is filled depending on the actual requirements, with the approval of the Chairman, DPCC.	Age : No. E.Q. : Yes to the extent of minimum qualification of degree in engineering.	One year for direct recruits.	(i) 66 2/3% by Promotion failing which by deputation; (ii) 33 1/3% by Direct Recruitment.

Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.				
---	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p>Promotion:</p> <p>Having five years regular service in the post of Environmental Engineer in Level 11 of Pay matrix (pre-revised PB-3, Rs.15600-39100/- with Grade pay Rs. 6600/-)</p> <p>Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of Central/State Government/Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) having atleast five years of regular service in posts in Level 11 of Pay matrix (pre revised Pay Band PB-3: Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/- or equivalent; and</p> <p>(b) possessing qualification and experience as per column No 7.</p> <p>Note :Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for</p>	<p>Departmental Promotion Committee consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman, DPCC —Chairman. Two members to be nominated by the Chairman —Members. Member Secretary, CPCB or his Nomine — Member. Member Secretary, DPCC —Member. Representative of SC/ST of GNCTD —Member. <p>Departmental Selection Committee consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman, DPCC —Chairman Two experts nominated by the Chairman —Members Member Secretary, CPCB or his nominee —Member Member Secretary, DPCC —Member Representative of SC/ST of GNCTD —Member. 	Not applicable.

deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;.

The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy.(Env.)-cum-Member Secy.